

01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 11.11.2020

## 50 शीशी नेपाली अवैध शराब की बरामदगी, अभियुक्त गिरफ्तार

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन और तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरूआ के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री शिवदास गौतम व हमराह पुलिस बल द्वारा दिनांक 11.11.2020 को एक व्यक्ति को ग्राम पिकौरा से कुल 50 शीशी नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना ढेबरूआ में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग का पंजीकरण किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त -

1. धर्मवीर पुत्र त्रिलोकी केवट साकिन पिकौरा थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

### पंजीकृत अभियोग

1- मु.अ.सं. संख्या: 295/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम।

### बरामदगी-

50 शीशी नेपाली अवैध शराब।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उप-निरीक्षक श्री शिवदास गौतम थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।
2. का0 महेंद्र प्रताप थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।
3. का0 अनिल यादव थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 11.11.2020

आज दिनांक 11.11.2020 को श्री रामअशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक लोटन के नेतृत्व में उ.नि. इशान्शु श्रीवास्तव मय टीम द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले चार व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में समय करीब 13:00 बजे गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय / जेल भेजा गया।

03

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 11.11.2020

## गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व निर्देशन में कल दिनांक 10/11.11.2020 को रात्रि में चौकी प्रभारी खुनुवां उ.नि. श्री विक्रम अजीत राय मय हमराह हे.का. सिकन्दर चौहान व को.मो. के कर्मचारी गण का. अखण्ड प्रताप शर्मा, का. विनय जयसवाल द्वारा प्लाईवुड तिराहा से एक अभियुक्त को 500 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 288/20 धारा 8/20 NDPS Act का मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त -

विनोद कहार पुत्र गोवर्धन कहार निवासी आर्यनगर धोबिया मोहल्ला कस्बा व थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

### बरामदगी -

अभियुक्त के कब्जे से 500 ग्राम गांजा बरामद।

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 10.11.2020**

**एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत की कार्यवाही में 29 शोहदे पकड़े गये ।**

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम और जनपद के सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा आज जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके और पार्क आदि स्थानों पर पाए गए 29 मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही की गयी ।

माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के दूसरे चरण में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 11.11.2020 को प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी तथा समस्त थानो की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास, पार्क तथा मुख्य सड़को, चौराहों आदि पर चेकिंग की गयी। इस दौरान 29 शोहदे पकड़े गये। शोहदो द्वारा माफी मांगने पर भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने की हिदायत देने के बाद छोड़ा गया ।

जनपद के विभिन्न कस्बों और गावो तथा विद्यालयो मे जागरूकता अभियान चलाया गया | जिसके अंतर्गत जनपद में सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन में मिशन शक्ति के तहत आपस में एक दूसरे से वार्तालाप किया गया और नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वीमेन पॉवर हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा और यातायात नियमों के सम्बन्ध जानकारी दी गयी ।

**एण्टी रोमियो टीम का विवरण-**

- 01- महिला उ0नि0 श्रीमती संध्यारानी तिवारी प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02- आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- आरक्षी राकेश कुमार यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04- महिला आरक्षी अमिता पटेल एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 05- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 06- विभिन्न थानो पर गठित एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 10.11.2020**

**मु0अ0सं0 186/2020 धारा 363/366 भादवि0 के अंतर्गत एक वान्छित अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही किया गया ।**

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के दिशा-निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व क्षेत्राधिकारी बांसी के पर्यवेक्षण के क्रम में श्री प्रदीप कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना खेसरहा व खेसरहा पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को सेमरा मुस्तकहम से मरवटिया बाजार रोड से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण**

1. अंकित कुमार यादव पुत्र अमर सिंह उर्फ गुड्डू साकिन गुलाल खेड़ा रतिया मऊ थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ ।

**घटना का संक्षिप्त विवरण**

प्रतिवादी उपरोक्त के द्वारा वादिनी की लड़की को दिनांक 06.11.2020 की रात में बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में ।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण**

1. उ0नि0 सुभाष प्रजापति, थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. हे0का0 पवन कुमार तिवारी, थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
3. का0 मोहम्मद सलमान, थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
4. महिला कांस्टेबल उमा दुबे, थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 10.11.2020**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी, सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री राधेश्याम राय प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, के नेतृत्व में थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 11.11.2020 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबीर खास की सूचना पर मोहम्मद मुन्शी पुत्र सोमानी सा0 कोडरा ग्रान्ट टोला इस्लामनगर थाना व जिला सिद्धार्थनगर को एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 321/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

**---गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण---**

- 1-उ0नि0 श्री रामअशोक यादव थाना को0 सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2- मुख्य आरक्षी छत्रपति यादव थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 10.11.2020**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी, सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री राधेश्याम राय प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 11.11.2020 को चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, भ्रमण के दौरान मोहम्मद रज्जाक पुत्र फते निवासी गौरीपुरवा थाना बखिरा, जनपद सन्तकबीरनगर को 01 किग्रा अवैध गाँजा व एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 322/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0 323/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

**---गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण---**

- 1-उ0नि0 श्री अजय सिंह थाना को0 सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2- उ0नि0 श्री चन्दन थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3- मुख्य आरक्षी अर्जुन यादव थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर।

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 10.11.2020**

आज दिनांक 11.11.2020 को माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सिद्धार्थनगर श्री राम अभिलाष त्रिपाठी के आदेश के क्रम में एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सिद्धार्थनगर श्री मायाराम वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण व नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के क्रम में थाना जोगिया उदयपुर में थानाध्यक्ष जोगिया उदयपुर श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव मय थाने की एण्टीरोमियो टीम के साथ थाना क्षेत्र का भ्रमण करते हुए नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वूमन पॉवर हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा के बारे में बताया गया। विद्यालय, बन्धा व मंदिर एवं बाजार में चेकिंग कि गई जिसमें कुल 07 व्यक्ति मिले जिसमें से 05 व्यक्तियों को हिदायत व 02 व्यक्तियों को माफीनामा पर छोड़ा गया।

**हिदायत पर छोड़े गये व्यक्तियों का विवरण**

1. शुभम पुत्र श्यामू सा0 रुद्रपुर थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर
2. पंकज पुत्र मिनकू सा0 रुद्रपुर थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर
3. अमीश पुत्र राकेश सा0 रुद्रपुर थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर
4. दुर्गेश पुत्र रमेश सा0 छिटही थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
5. महेश पुत्र वीरेन्द्र सा0 टेकापार थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर

09

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 11.11.2020**

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में आज दिनांक 11.11.2020 को आगामी त्यौहार दीपावली व छठ पूजा के दृष्टिगत शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद के समस्त थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग की गयी तथा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ "दंगा नियंत्रण ड्रिल/" एवं फ्लैग मार्च किया गया।

10

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 11.11.2020**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में आज दिनांक 11.11.2020 को आगामी त्यौहार दीपावली व छठ पूजा एवं विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में दिए गए निर्देश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन में श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक डेबरूआ, और उपनिरीक्षक श्री हरि नारायण दिक्षित, प्रभारी चौकी बढनी तथा हमराह पुलिस बल द्वारा, एसएसबी के इन्स्पेक्टर श्री पी0 पी0 नाथ, व आरपीएफ के चौकी प्रभारी श्री जसवीर सिंह के साथ संयुक्त अभ्यास किया गया। इस अवसर पर उपनगर बढनी में प्रमुख मार्गों व स्थलों पर फुट पेट्रोलिंग/ फ्लैग मार्च के दौरान चौराहो, मार्केट, भीड़-भाड़ वाली जगहो आदि पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो/वस्तुओ की गहनता से चेकिंग की गई तथा मिशन शक्ति अभियान व यातायात नियमो, मास्क का प्रयोग करने (कोविड-19 के दृष्टिगत) के सम्बन्ध में लोगो को जागरूक किया गया।

11

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 11.11.2020**

आगामी त्यौहार धनतेरस, दीपावली व डाला छठ के दृष्टिगत श्री दीपक मीणा जिलाधिकारी महोदय सि0नगर, श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक महोदय सि0नगर द्वारा दिये गये आदेश निर्देश के क्रम में श्री जग प्रवेश, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी महोदय बांसी तथा श्री अरुणचंद क्षेत्राधिकारी बांसी के नेतृत्व में शैलेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर व थाना स्थानीय कर्मचारी गण के साथ आज दिनांक 11.11.2020 को त्यौहार धनतेरस, दीपावली व डाला छठ के पर्व के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के स्थायी पटाखा विक्रेता व अन्य स्थानों पर भ्रमण पर दुकानदारों को विस्फोटक सामग्री जैसे पटाखा, बारूद इत्यादि के अवैध भण्डारण, पटाखों से होने वाले प्रदुषण सम्बन्धित विषयों पर निर्गत आदेश निर्देश से अवगत कराया गया तथा दुकानदारों को आगजनी से बचाव हेतु अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग कर अभ्यास कराया गया व दुकानदारों को आने वाले ग्राहकों को निर्देशों से अवगत कराने हेतु बताया गया।

12

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 11.11.2020**

**क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा थाना कपिलवस्तु का अर्द्धवार्षिक मुआयना कर प्रभारी निरीक्षक कपिलवस्तु को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।**

आज दिनांक 11.11.2020 को श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक, सदर महोदय द्वारा थाना कपिलवस्तु का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यलय, बैरक, आवास, मेस का भ्रमण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। भारत नेपाल सीमा पर विशेष सतर्क दृष्टि रखने व एसएसबी के साथ समन्वय स्थापित कर मादक पदार्थो व प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी की रोकथाम कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। साथ ही अभिलेखो का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष कपिलवस्तु महेश सिंह, प्रभारी चौकी बजहा उपनिरीक्षक श्री वीरेंद्र कुमार कुवर, उपनिरीक्षक किशोरीलाल, उपनिरीक्षक श्री संजीव कुमार शुक्ला व अन्य कर्मचारी गण मौजूद रहे